



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 540 राँची, सोमवार,

1 जुलाई, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

24 जून, 2019

संख्या-4/स्था०पद०-02-13/2014 का.4951-- बासुकीनाथ श्रावणी मेला, 2019 के अवधि के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को दुमका जिला में दिनांक 15.07.2019 से श्रावणी मेला की समाप्ति तक के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

क्र० स०	पदाधिकारी का नाम/बैच/गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन
I	II	
1	श्री फुलेश्वर मुर्मू, द्वितीय सीमित बैच, देवघर	कार्यपालक दण्डाधिकारी, जमशेदपुर
2	श्री कृष्ण मुरारी तिर्की, चतुर्थ बैच, राँची	कार्यपालक दण्डाधिकारी, साहेबगंज
3	श्री मोहन लाल मराण्डी, प्रथम बैच, गोड्डा	कार्यपालक दण्डाधिकारी, लातेहार
4	श्री महेन्द्र मांझी, द्वितीय सीमित बैच, गोड्डा	कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़ सदर
5	श्री सुदेश कुमार, द्वितीय सीमित बैच, देवघर	कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह

II. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के तहत दुमका जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

III. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी दिनांक 14.07.2019 तक प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को उपायुक्त, दुमका के कार्यालय में योगदान हेतु विरमित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

IV. सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी उपायुक्त, दुमका के कार्यालय में दिनांक 15.07.2019 के पूर्वाह्न में योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा श्रावणी मेला की समाप्ति के उपरांत उपायुक्त, दुमका द्वारा विरमित किये जाने के फलस्वरूप अपने पदस्थापन के पद पर योगदान करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अनिल कुमार सिंह,**  
सरकार के अवर सचिव।

-----